



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247415
CG-DL-E-18072023-247415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]
No. 410]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ़ 27, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 516(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2007, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक-ग्रेड-II, प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों से है को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पदों के भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना :- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो हैं - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़ा वेतन मैट्रिक्स का पैमाना, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट अनुसार होगा।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता :- वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू पर्सनल लॉ के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

I. आशुलिपिक ग्रेड- II

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-II	16* (2023) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4 (25,500-81,100/- रूपए)	गैर चयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12^{वीं} कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण मानदंड</p> <p>श्रुतलेखन: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट</p> <p>प्रतिलेखन: 65 मि. (अंग्रेजी); 75 मि. (हिन्दी) (मैन्युअल टाइपराइटर पर) या 50 मि (अंग्रेजी); 65 मि (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)</p>	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। ध्यान दें: कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्र सरकार के नियमित आधार पर अनुरूप पद रखने वाले और योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकती हैं।	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनके तहत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) जिसमें शामिल हैं :- 1. निदेशक या उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - अध्यक्ष, 2. अन्य मंत्रालय या विभाग से संबंधित अवर सचिव - सदस्य, 3. अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य	लागू नहीं

2. प्रवर श्रेणी लिपिक

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रवर श्रेणी लिपिक	8* (2023) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4 (रु. 25,500-81,100/-)	गैर चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।	<p>पदोन्नति:</p> <p>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और इंजीनियर संपर्क कार्यालयों में लेवल-2 में काम करने वाले अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन:</p> <p>केंद्र सरकार के अधिकारियों में से:</p> <p>(i) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करना; या</p> <p>(ii) अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>नोट-1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: विभागीय उम्मीदवार जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा विचार के लिए पात्र नहीं होगा।</p>

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनके तहत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक या उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - अध्यक्ष, अन्य मंत्रालय या विभाग से संबंधित अवर सचिव - सदस्य, अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 	लागू नहीं

3. अवर श्रेणी लिपिक

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	19* (2023) *कार्य भार के	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग,	लेवल-2 (रु. 19,900-	गैर चयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के

	आधार पर परिवर्तन हो सकता है	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	63,200/-)		अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
--	-----------------------------	-----------------------	-----------	--	--

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता</p> <p>(ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या</p> <p>कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होनी चाहिए।</p> <p>(35 शब्द प्रति मिनट या 30 शब्द प्रति मिनट/प्रत्येक शब्द के लिए 10500 केडीपीएच/9000 डिप्रेशन के अनुरूप)</p>	<p>आयु- नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता- कॉलम (10) में दर्शाई गई सीमा तक, हाँ</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।</p>

भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
<p>(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 85%</p> <p>(ii) 10% रिक्तियां वेतन लेवल -1 में समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता है और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (एससी या एसटी के लिए 50 वर्ष की आयु)।</p> <p>नोट: यदि खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसी अतिरिक्त संख्या में कर्मचारियों को बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए भरने पर विचार किया जाएगा ताकि पहले की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारी पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जा सके।</p> <p>(iii) 5% रिक्तियां वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी, जिनके पास वेतन लेवल -1 वाले पदों पर 3 साल की नियमित सेवा की है।</p>	<p>जैसा कि कॉलम (10) के अंतर्गत बताया गया है</p>

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनके तहत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण और पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. निदेशक या उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - अध्यक्ष, 2. अन्य मंत्रालय या विभाग से संबंधित अवर सचिव - सदस्य, 3. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य।	लागू नहीं

4. मल्टी टास्किंग स्टाफ

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	35* (2023) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, गैर-अनुसूचित	लेवल-1 (रु. 18,000-56,900/-)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच नोट : आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम जमा करने के लिए कहा जाता है।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की विधि चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनके तहत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. निदेशक या उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - अध्यक्ष, 2. अन्य मंत्रालय या विभाग से संबंधित अवर सचिव - सदस्य, 3. अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. 12025/03/2019-स्था. II]

राजेश चौधरी, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

G.S.R. 516(E).—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 2007 in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade-II, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Multi Tasking Staff except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in the Ministry of Road Transport and Highways, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways (Group C Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**-These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, Level in pay matrix.**-The number of said posts, their classification and the scale of pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**- No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Savings.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE**I. Stenographer Grade-II**

Name of the post	No. of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	16* (2023) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)	Non Selection	Between 18 and 27 years. (Relaxable for government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or University (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 65 mts. (Eng.); 75 mts. (Hindi) (on Manual Typewriter) or 50 mts. (Eng.); 65 mts. (Hindi) (on Computer)	Not applicable	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation/promotion/absorption grades from which deputation/promotion/absorption to be made
(10)	(11)
By Direct Recruitment through Staff Selection Commission. Note : vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways — Chairman,	Not applicable

2. Under Secretary belonging to other Ministry or Department — Member,	
3. Under Secretary(Administration) — Member.	

2. Upper Division Clerk

Name of the post	No. of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk	8* (2023) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)	Non Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation/promotion/absorption grades from which deputation/promotion/absorption to be made
(10)	(11)
By Promotion, failing which by deputation or absorption.	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Lower Division Clerks working in the Regional Offices and Engineer Liaison Offices, Ministry of Road Transport and Highways in Level-2, with 8 years regular service in the grade.</p> <p>Deputation or absorption:</p> <p>From amongst officials of the Central Government:</p> <p>(i) holding analogous post on a regular basis; or</p> <p>(ii) with 8 years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: Departmental candidates who are in direct line of promotion shall not be considered for deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration by promotion.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee(for promotion) consisting of:-</p> <p>1. Director or Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways — Chairman,</p>	Not applicable

2. Under Secretary belonging to other Ministry or Department — Member,	
3. Under Secretary(Administration) — Member.	

3. Lower Division Clerk

Name of the post	No. of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	19* (2023) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial	Level-2 (Rs. 19,900-63,200/-)	Non Selection	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12 th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University (ii) A typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi on manual typewriter; or A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m or 30 w.p.m./ correspond to 10500 KDPH/9000 depressions for each word)	Age-No. Educational Qualification- Yes to the extent indicated in column (10)	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation/promotion/absorption grades from which deputation/promotion/absorption to be made
(10)	(11)
(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the pay Level-1 and who possess 12 th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of department qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the SC or ST). Note : If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	As stated under Column (10)

(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have 3 years regular service in posts with pay Level-1.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways — Chairman, 2. Under Secretary belonging to other Ministry or Department — Member, 3. Under Secretary (Administration) — Member.	Not applicable

4. Multi Tasking Staff

Name of the post	No. of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	35* (2023) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 (Rs. 18,000-56,900/-)	Not Applicable	Between 18 and 25 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation/promotion/absorption grades from which deputation/promotion/absorption to be made
(10)	(11)
By Direct Recruitment	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways — Chairman, 2. Under Secretary belonging to other Ministry or Department — Member, 3. Under Secretary (Administration) — Member.	Not applicable

[F. No. 12025/03/2019-E.II]

RAJESH CHOUDHARY, Dy. Secy.